



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24—अप्रैल 30, 2010 (वैशाख 4, 1932)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24—APRIL 30, 2010 (VAISAKHA 4, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2010

सं. आरएस. 20/1/2010/23-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री सूरज मल, उप निदेशक 31 मार्च, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस. 20/1/2010/24-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री सुरेश बी. मलकानी, सहायक निदेशक 31 मार्च, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. आरएस. 3/7/1/2010/26-कार्मिक--श्री भालेन्दू भूषण द्विवेदी, जिन्हें पहले दिनांक 10 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. आरएस.-3/7/1/2009/72-कार्मिक द्वारा स्वस्थाने आधार पर उपनिदेशक (सम्पादन

व अनुवाद) के रूप में प्रोन्नत किया गया था, को अब 05 अप्रैल, 2010 से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति में समायोजन किया गया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./3/7/1/2010/27-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री श्याम लाल हेम्ब्रम, अनुवादक को 05 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन ग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ संपादक के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./42/9/2010/28-कार्मिक--श्री उरुजुल हसन, सुरक्षा अधिकारी को 05 अप्रैल, 2010 (अपराह्न) से इस सचिवालय से कार्यमुक्त कर दिया गया है और उनकी सेवाएं माननीय युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम. एस. गिल) के वैयक्तिक स्टाफ में प्रतिनियुक्ति/

सह-पदावसान आधार पर अपर निजी सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हेतु युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को सुपुर्द कर दी गई है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560 231, दिनांक 6 अप्रैल 2010

सं. 14012/2/2007-अनु. IV--अनुशासनिक कार्रवाई की समाप्ति पर राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के एस.डी.एस.सी. शार, श्रीहरिकोट के श्री एम. शंकर बाबु, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी. (निलम्बनाधीन), को दिनांक मार्च 30, 2010 के सम संख्यक आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त करते हैं।

एम. नवमणी, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. ए-19/जी.ए./102--श्री सलेक चन्द, वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी एवं प्रमुख, राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र को एतद्वारा भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में वेतन बैंड-3, रुपए 15,600--39,100/- तदनु रूप ग्रेड वेतन रुपए 6,600/- पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 04.03.2010 (अपराह्न) से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सलेक चन्द के वेतन और भत्ते, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित का. ज्ञा. सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II), दिनांक 05.01.1994 के अनुसरण में दिनियमित किए जाएंगे।

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, अवर सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. ए-19/जी.ए./103--राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के कार्यालय आदेश सं. 5/4/2010-रा.भा. (सेवा), दिनांक 15.03.2010 के साथ पठित नागर विमानन महानिदेशालय के कार्यालय आदेश सं. ए.-19012/3/94-ई.-II, दिनांक 01.04.2010 के अनुसरण में, श्रीमती रचना गुप्ता को एतद्वारा भारत निर्वाचन आयोग में तदनु रूप ग्रेड-वेतन रुपए 6,600/- के साथ वेतन बैंड-3, रुपए 15,600--39,100/- में एक वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर, उपनिदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 30 मार्च 2010

सं. के. 13021/1/2010-यू.एस. II, (ii)--राष्ट्रपति, संविधान (जम्मू एवं कश्मीर के सम्बन्ध में लागू) आदेश, 1954 के अनुच्छेद 222 (1क) के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के पश्चात्,

सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् डॉ. आफताब हुसैन शइकीया को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 13 अप्रैल, 2010 को या उससे पहले जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के. 13021/1/2010-यू.एस. II, (i)--राष्ट्रपति, संविधान (जम्मू एवं कश्मीर के सम्बन्ध में लागू) आदेश, 1954 के अनुच्छेद 222 (1क) के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के पश्चात्, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् बारिन घोष को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 13 अप्रैल, 2010 को या उससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मार्च 2010

सं. 14016/11/2008-यू.टी.एस.-II--गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निरीक्षक (डी-1/867) श्री सतीश कुमार (जन्म तिथि : 01.07.1956) को 9,300--34,800/- रुपए (ग्रेड-पे-4,800/- रुपए) के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के प्रविष्टि ग्रेड में दिनांक 19 जनवरी, 2010 अर्थात् उनके तत्काल कनिष्ठ अधिकारी के दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर नियुक्त किया है। तथापि, उनकी दिनांक 19 जनवरी, 2010 से आज की तारीख तक की नियुक्ति केवल नोशनल होगी तथा अधिकारी पिछले वेतन के लिए पात्र नहीं होंगे। वह नियमों के अंतर्गत उन्हें देय अन्य संगत लाभों के हकदार होंगे।

2. दिल्ली पुलिस के निरीक्षक श्री सतीश कुमार की दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्ति, सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4210/2007-जगदीश चन्द बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले के निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. 14046/273/2002-यू.टी.एस.-II--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी श्री ए. ए. सिद्दिकी, जो वर्ष 2001 से अचेत अवस्था में हैं, को

अस्वस्थता के कारण एतद्वारा तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करती हैं।
उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक सेवा-काल का लाभ दिया जाएगा।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. आई-14011/23/2009-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 31.03.2010 को चयन समिति की दिनांक 16.12.2009 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2009 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के गुजरात संवर्ग में वर्ष 2009 में तीन मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु गुजरात पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:--

चयन सूची-2009

क्र.सं. अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
सर्व/श्री	
1. एम. एस. भारदा	31.05.1965
2. एच. आर. चौधरी	19.01.1965
*3. जे. बी. मनडाविया	14.10.1956

*क्रम संख्या 03 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध आपराधिक मामले के निपटान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/23/2009-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत गुजरात संवर्ग प्रदान करते हैं:--

चयन सूची-2009

क्र.सं. अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
सर्व/श्री	
1. एम. एस. भारदा	31.05.1965
2. एच. आर. चौधरी	19.01.1965
2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।	

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

दिनांक 2 अप्रैल 2010

सं. आई-14011/3/2009-आईपीएस-1(II)--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री सैयद अताउल करीम (जन्म तिथि 01.01.1956) के नाम को

भारतीय पुलिस सेवा के संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए दिनांक 08.12.2009 को आयोजित वर्ष 2008 की चयन सूची बैठक में, जिसे आयोग ने दिनांक 15.02.2010 को अनुमोदित किया था, दिनांक 05.04.2010 को उनके नाम को अंतिम रूप से शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य पुलिस सेवा के सदस्य श्री सैयद अताउल करीम (जन्म तिथि 01.01.1956) को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

अंतर्राज्य परिषद सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 07 अप्रैल 2010

सं. ए-19011/2/2010-अं.रा.प.--राष्ट्रपति, श्री अमिताभ खर्कवाल को अंतर्राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में दिनांक 01 अप्रैल 2010 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुशील कुमार, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 01 अप्रैल 2010

सं. 14015/15/2009-अ.भा.से.(1)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2009 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन मणिपुर-त्रिपुरा (मणिपुर-खण्ड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 09 अक्टूबर, 2009 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अधीन 02 मार्च, 2010 को अनुमोदित की गई संयुक्त मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के मणिपुर खण्ड के गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:--

चयन सूची-2009

क्र.सं. अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
सर्व/श्री	
1. ठाकुर चितरंजन सिंह	01.01.1958
2. जैसन शिमराय (अनु.जा.)	01.03.1958

2. उपर्युक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का शामिल किया जाना माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक, बेंगलूर के समक्ष रिट याचिका

सं. 1803-1806/2010 (एस.के.प्र.अ.) और बैच के परिणाम के अध्वधीन होगा।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/15/2009-अ.भा.से.(1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2009 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(5) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर राज्य सिविल सेवा मणिपुर के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अधीन मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के मणिपुर-खण्ड में आबंटित करते हैं:--

क्र.सं. अधिकारियों के नाम

सर्व/श्री

1. ठाकुर चितरंजन सिंह
2. जैसन शिमराय (अनु.जा.)

2. उपर्युक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का शामिल किया जाना माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक, बेंगलूर के समक्ष रिट याचिका सं. 1803-1806/2010 (एस.के.प्र.अ.) और बैच के परिणाम के अध्वधीन होगा।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2010

सं. 06/पीए-II/2010--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के एकीकृत संवर्गों II एवं III के निम्नलिखित अधिकारी को, उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा (ख) के संवर्ग I में नियुक्त करते हैं :-

अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख
श्री बैसनब सी. प्रधान	22.03.2010 (पूर्वाह)

2. उपर्युक्त नियुक्तिय न्यायालय के उन निर्णयों के अध्वधीन होगी जो इन पदोन्नति पर लागू होते हैं।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव

दिनांक 31 मार्च 2010

सं. क्यू/पीए-II/581/5/08--सुश्री अपर्णा रे, भारतीय विदेश सेवा की 2008 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारी विवाह के उपरांत श्रीमती "अपर्णा रे पाई" के नाम से जानी जाएंगी।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव
(एफएसपी व कैडर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2010

सं. 07/पीबी-III/2010--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के वरिष्ठ मुख्य निजी सचिव संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा के आशुलिपिक संवर्ग के मुख्य स्टाफ अधिकारी (पीएसओ) के संवर्ग में इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/11/2009 दिनांक 25 मार्च, 2010 के अनुरूप उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं:--

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
श्री जसबीर सिंह	01.04.1950	22.03.2010

2. उपर्युक्त अधिकारी ने अपने नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से प्रमुख स्टाफ अधिकारी के पद पर कार्यभार संभाल लिया है।

एस. के. वर्मा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2010

सं. 2010का 01 फा. सं. ए-39011/2/2008-एडी VIए--राष्ट्रपति, श्री नीलेश कुमार पटेल, आईआरएस, (सिविल कोड संख्या 91126), अपर मुख्य आयकर आयुक्त का केन्द्रीय सरकार सेवा से त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हैं।

आर. एस. बिष्ट, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2010

सं. ए. 12011/5/2007-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, श्री टी. उदय कुमार को उनकी परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने पर 19 अक्टूबर 2009 के पूर्वाह से और अगले आदेशों तक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में मूल क्षमता में उप निदेशक (बजट व लेखा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम बोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. ए-12011/13/2008-प्रशा. 2--व्यय विभाग (सीएस) की दिनांक 26.03.2010 के का.ज्ञा.सं.-32022/1/2010-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, वर्तमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के निम्नलिखित नियमित निजी सचिव को 15,600--39,100/- रुपए + 6,600/- रुपए (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-3 में 26.03.2010 (पूर्वाह)

से नियमित आधार पर नीचे उल्लिखित प्रवर सूची वर्ष में आर्थिक कार्य विभाग में प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	प्रवर सूची वर्ष
सर्व/श्री		
1.	आर. प्रदीप कुमार	2005
2.	बी. के. खुराना	2007

बी. रामकुमार, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2010

सं. 11018/1/2006-प्रशा. II--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक (एसआईयू) में 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. (ग्रेड वेतन) बैंड-2 में सहायक लेखा अधिकारी के एक पद को इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से महालेखा नियंत्रक के कार्यालय में 7,450-11,500/- रु. (संशोधन-पूर्व) के वेतनमान में केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा में संवर्गीकृत किया जाता है।

मीताली घोष, अवर सचिव

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 25 मार्च 2010

सं. ए-32013/8/(2)/2008/गुप ए/194-231--राष्ट्रपति, समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती नियमावली 2006 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (गुप 'बी') को (पूर्वसंशोधित) 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान (5,400/- रु. के ग्रेड पे सहित 15,600-39,100/- रु. के नए पे-बैंड-3) में उनके उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से परीक्षा के आधार पर भारतीय सिविल लेखा सेवा गुप 'ए' के कनिष्ठ समयमान में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम
1	2
सर्व/श्री	
1.	जे. टोटथारी
2.	ए. के. सरकार
3.	आर. एम. मिश्रा
4.	बी. के. होलदर
5.	पी. के. गौड़
6.	सोम दत्त शर्मा
7.	बी. एन. सरकार
8.	डी. एस. काराकोटी
9.	आर. पी. शर्मा
10.	ए. पी. एस. चोपड़ा
11.	डी. के. गुप्ता

1	2
सर्व/श्री	
12.	एस. एम. नारायणाप्पा
13.	ए. आर. दास
14.	आर. डी. खेरवाल
15.	डी. के. हलधर
16.	टी. कानन
17.	के. सी. मीना
18.	विंसेन्ट ट्रिक्की
19.	राजपाल
20.	सुकवीर सिंह
21.	एस. आर. शर्मा
22.	देवव्रत मैत्रा
23.	राकेश द्विवेदी

परीक्षा अवधि कनिष्ठ समयमान में पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की होगी।

आस्था एस. खटवानी, उप महालेखा नियंत्रक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2010

शुद्धिपत्र

सं. ए-32014/1/2009-संवर्ग (खंड-II)--भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड-2 में प्रकाशित भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) की दिनांक 15 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं. ए-32014/1/2009-संवर्ग में श्री जे. एन. शाह (क्र. सं. 7 जन्मतिथि 02.01.1963, श्रेणी-अनुसूचित जनजाति) के नाम के सामने चयन सूची वर्ष वाले कालम में की गई प्रविष्टि को 1998 के स्थान पर 1996 पढ़ा जाए।

परमजीत सिंह, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ए-19011/3/2008-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री भूप सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2010 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

एस. एल. बड़ोदिया, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2010

मिसिल सं. ए-12011/2/2010-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08 अप्रैल, 2010 के आदेश संख्या 3/4/2009-

सी.एस.-I (डी) के अनुसरण में, इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव श्री एस. एल. वशिष्ठ को 08 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 37,400/-67,000/- रुपए के वेतन बैंड (पी बी-4) और 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 मार्च 2010

सं. ए-19014/02/09-प्रशा. 1(ए)--राष्ट्रपति, कु. पूनम यादव को 15,600/-39,100/- रुपए (पी बी-3) के वेतन बैंड + 5,400/- रुपए ग्रेड पे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में संविदा आधार पर परियोजना वैज्ञानिक 'बी' के रूप में 29.03.2010 (पूर्वाह्न) से 31.03.2012 तक अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी नैनो मिशन (नैनो मिशन) के कार्यकाल तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 1 अप्रैल 2010

सं. ए-19014/08/08-प्रशा. 1(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अवर सचिव, श्री एस. एस. पाल को अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने पर 31 मार्च, 2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. 18011/8/2000-आई.एफ.एस.-I--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन 1966 के विनियमावली 7 के उप-विनियम 3 में उल्लिखित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 1985 से 1987 के लिए चयन सूचियां तैयार करने के लिए समीक्षा चयन समिति की एक बैठक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 09.06.2008 को आयोजित की गई थी। अब संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार की गई 1985 की संशोधित चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें 01 जनवरी, 1985 को भारतीय वन सेवा संवर्ग की अरुणाचल प्रदेश में उपलब्ध एक पदोन्नति रिक्ति को भरने के लिए राज्य वन सेवा के संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग (अरुणाचल प्रदेश सेगमेंट) के श्री रामसन मोदी (जन्म तिथि 01.03.1947) का नाम श्री टी. मिल्लिंग (जन्म तिथि 14.03.1950) के नीचे रखा गया है।

विवेक सक्सेना, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. ए-12025/107/2007-सी.एच.एस.-I --राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा

आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राशि तनेजा को 30.09.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पीबी-3 [15,600/-39,100/- + ग्रेड वेतन (5,400/- रुपए)] के वेतनमान में अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. राशि तनेजा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। डॉ. राशि तनेजा दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए-12025/110/2006-सी.एच.एस.-I --राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अर्नब सरकार को 14 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पीबी-3 [15,600/-39,100/- + ग्रेड वेतन (5,400/- रुपए)] के वेतनमान में अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. अर्नब सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। डॉ. अर्नब सरकार नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. ए-12025/25/2006-सी.एच.एस.-III --राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. निखिल खट्टर को 23.12.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में यूरोलॉजी की विशिष्टता में सहायक आचार्य के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ए-15012/6/2009-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद, इस विभाग के श्री जी. सुब्रमणियन, उप सचिव को दिनांक 31 मार्च, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

पी. एल. मीणा, अवर सचिव

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2010

सं. ए-19015/63/2008-स्थापना--डॉ. अजय कुमार, निदेशक, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) 01 अप्रैल, 2010 पूर्वाह्न से स्वैच्छिक तौर पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

आर. चौधरी, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली-110 114, दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. ए-23018/04/2007-स्थापना-II--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.03.2010 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 5/7/2008-CS-II के अनुसरण में एवं पदोन्नति के लिए उनके नाम का अनुमोदन किए जाने पर, राष्ट्रपति, श्री एम. एन. गौड़ा को दिनांक 17.03.2010 (पूर्वाह्न) से पे-बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड पे 6,600/- रुपए में ग्रामीण विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS) संवर्ग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती है। श्री एम. एन. गौड़ा का नाम वर्ष-2005 की प्रवर सूची में सम्मिलित है।

नीता तहिलियानी, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मार्च 2010

सं. एफ. 6-3/2009-एम-1--राष्ट्रपति, डॉ. वी. के माथुर, संग्रहालय शिक्षा अधिकारी, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली को, 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 तथा ग्रेड पे 6,600/- रुपए में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में संग्रहाध्यक्ष (व्याख्यान एवं शिक्षा), समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवाय, के पद पर 18.01.2010 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर नियुक्त करती है।

एन. पी. जोशी, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. 4(776)/2009-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्रीमती उषा कालरा (कर्मचारी कोड सं. 391) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगी।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 4(88)/77-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', श्री ए. बी. पतकी (कर्मचारी कोड सं. 75) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 4(833)/2009-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में निजी सचिव, श्री वीरेन्द्र कुमार टुटेजा (कर्मचारी कोड सं. 0449) अधिवर्षिता

की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 4(80)/75-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', डॉ. यू. पी. फड़के (कर्मचारी कोड सं. 72) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

दिनांक 6 अप्रैल 2010

सं. 3(16)/2009-का.-I--राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक 'सी' श्री वाई. एस. तंवर को पदोन्नत होने पर दिनांक 22.02.2010 के पूर्वाह्न से 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में वैज्ञानिक 'डी' नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति (i) उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 की रिट याचिका (सी) सं. 7080 में लिए गए निर्णय, जिसका फैसला दिनांक 26.09.2008 को सुनाया गया, पर एनआईसी द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष याचिका के अंतिम नतीजे पर तथा (ii) अधिकारी द्वारा सिविकम मणिपाल स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकीय विज्ञान विश्वविद्यालय से हासिल की गई एम.एससी. (आईटी) स्नातकोत्तर डिग्री की वैधता पर निर्भर करेगी।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 3(16)/2009-का.-I--राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'सी' को पदोन्नत होने पर दिनांक 22.02.2010 के पूर्वाह्न से 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में वैज्ञानिक 'डी' नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 की रिट याचिका (सी) सं. 7080 में लिए गए निर्णय, जिसका फैसला दिनांक 26.09.2008 को सुनाया गया, पर एनआईसी द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष याचिका के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा :--

क्र.सं. अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1. श्री टी. संतोष	22.02.2010
2. श्रीमती रेखा ग्रोवर	22.02.2010

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 3(16)/2009-का.-I--राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'डी' को पदोन्नत होने पर 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 में वैज्ञानिक 'ई' नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 की रिट याचिका (सी) सं. 7080 में लिए गए निर्णय, जिसका फैसला दिनांक 26.09.2008 को सुनाया गया, पर एनआईसी द्वारा भारत के

उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष याचिका के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा :--

क्र.सं. अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1. श्री दीपक शर्मा	22.02.2010
2. श्रीमती संगीता अरोड़ा	22.02.2010
3. श्री अनिल कुमार कौशिक	22.02.2010
4. डॉ. संदीप चटर्जी	22.02.2010
5. श्रीमती कविता भाटिया	22.03.2010

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 3(16)/2009-का.-I--राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक 'बी' श्री अरुण घोष को पदोन्नत होने पर दिनांक 22.02.2010 के पूर्वाह्न से 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 की रिट याचिका (सी) सं. 7080 में लिए गए निर्णय, जिसका फैसला दिनांक 26.09.2008 को सुनाया गया, पर एनआईसी द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष याचिका के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2010

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/11--कॉकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री यू. पी. एल. दास, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल कार्मिक सेवा, ने 24.12.2009 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/14--इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राइट्स में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री एस. एस. गावाने, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ने 16.03.2010 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/12--इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राइट्स में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री डी. मजूमदार, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ने 16.03.2010 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/05--कॉकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री के. सुंदरराजन, सेलेक्शन ग्रेड/भारतीय रेल लेखा सेवा ने 27.10.2009 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/10--कॉकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री ए. के. पंडरकर, सेलेक्शन ग्रेड/भारतीय रेल कार्मिक सेवा ने 14.10.2009 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/15--राइट्स में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री जतिन सरकार, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा, ने 16.03.2010 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/09--दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के समूह 'ख' अधिकारी श्री जी. सी. अग्रवाल ने 24.12.2009 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/13--इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री संजय गुप्ता, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ने 14.10.2009 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत-परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. ए-32011/2/08-एम ए--राष्ट्रपति, कैप्टन पी. मिश्रा, नॉटिकल सर्वेक्षक को दिनांक 03.03.2010 (अपराह्न) से तथा अगले आदेशों तक नौवहन महानिदेशालय, मुंबई में 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड पे 8,700/- रु. के वेतनमान में उप नॉटिकल सलाहकार-सह-वरिष्ठ उप नौवहन महानिदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त करती है।

ए. आर. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-32011/6/08-एम ए--राष्ट्रपति, नौवहन महानिदेशालय में कार्य कर रहे श्री सुरेश कुमार आर.एम., उप मुख्य पोत सर्वेक्षक को दिनांक 24.03.2010 (अपराह्न) से तथा अगले आदेशों तक नौवहन महानिदेशालय, मुंबई में 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड पे 8,700/- रु. के वेतनमान में मुख्य पोत सर्वेक्षक-सह-संयुक्त महानिदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त करती है।

ए. आर. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2010

सं. ए-19011/10/2008-ई-1--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 01.09.2008 के आदेश संख्या-11015/2/2008-आईएसएस के साथ पठित दिनांक 11.12.2009 के आदेश संख्या-12016/9/एसएजी/2008-आईएसएस (भाग 1) के तहत भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में नियमित आधार पर पदोन्नति किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी श्री मदन मोहन हसीजा को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में दिनांक 11.12.2009 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक 37,400--67,000/- रुपये के पे बैंड-4 और 10,000/- रुपये के ग्रेड पे में उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह आदेश, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मामलों अर्थात् (1) माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, हैदराबाद खंडपीठ के समक्ष श्री ई. नागचन्द्रन द्वारा दायर ओ ए सं. 586/09 और (2) माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली के समक्ष श्री टी. आर. मोहन्ती द्वारा दायर ओ ए सं. 1705/09 के परिणामों के अध्यधीन होगा।

वी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2010

सं. 12/2010-मि.सं. ए-38012/1/2008-प्रशा.एक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी भारत सरकार की सेवा से अपने नाम के आगे दी गई तिथि के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम	अधिवर्षिता की तिथि
	सर्वश्री		
1.	आई. जे. शर्मा	निदेशक (इंजीनियरी)	31.03.2010
2.	वाई. पी. कोहली	सहायक निदेशक (श्रेणी-1)(इंजीनियरी)	31.03.2010

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 7/2010 (फाइल सं. 22/649/2009-प्रशा.)--राष्ट्रपति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 11.12.2009 के कार्यालय आदेश सं. 12016/9/एसएजी/2008-आईएसएस (खण्ड-I) के तहत श्री विजय कुमार, निदेशक (सांख्यिकी) की श्रीमती ममता सक्सेना, निदेशक (सांख्यिकी) की रु. 37,400--67,000/- + रु. 10,000/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान (वेतन बैंड-4) में नियमित आधार पर भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएसजी) में पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप निदेशक (सांख्यिकी) के एक पद को उप महानिदेशक (सांख्यिकी) ग्रेड में उन्नयन के द्वारा दिनांक 11.12.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक जल संसाधन मंत्रालय में उप महानिदेशक (सांख्यिकी) के पद पर नियुक्त करते हैं, यह उन्नयन पदस्थापन के लिए व्यक्तिगत रूप से है।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 6/2010 (फाइल सं. 22/487/2001-प्रशा.)--राष्ट्रपति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 11.12.2009 के कार्यालय आदेश सं. 12016/9/एसएजी/2008-आईएसएस (खण्ड-I) के तहत श्री विजय कुमार, निदेशक (सांख्यिकी) की रु. 37,400--67,000/- + रु. 10,000/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान (वेतन बैंड-4) में नियमित आधार पर भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएसजी) में पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप निदेशक (सांख्यिकी) के एक पद को उप महानिदेशक (सांख्यिकी) ग्रेड में उन्नयन के द्वारा उन्हें दिनांक 11.12.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक जल संसाधन मंत्रालय में उप महानिदेशक (सांख्यिकी) के पद पर नियुक्त करते हैं, यह उन्नयन पदस्थापन के लिए व्यक्तिगत रूप से है।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. 7/18/2008-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर, कर्नल (सेवानिवृत्त) मोहन चन्द्र जोशी को केन्द्रीय भूजल बोर्ड में वेतन बैंड-4 के वेतनमान, 37,400--67,000/- रुपये + जी. पी. 8,700/- रुपये में निदेशक (प्रशा.) के पद पर 22.02.2010 (अपराह्न) से 31.01.2013 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पुनः रोजगार आधार पर नियुक्त करते हैं।

एम. एन. सुकुमारन, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st April 2010

No. RS.20/1/2010/23-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Suraj Mal, Deputy Director (E&T) retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2010.

S. RANGARAJAN, Deputy Dir.

No. RS.20/1/2010/24-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Suresh B. Malkani, Assistant Director retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2010.

S. RANGARAJAN, Deputy Dir.

The 5th April 2010

No. RS.3/7/1/2010/26-Perl.—Shri Bhalendu Bhushan Dwivedi, who was earlier granted promotion as Deputy Director (E&T) on in situ basis vide Notification No. RS/3/7(1)/2009/72-Perl. dated 10th September, 2009, stands adjusted against a regular vacancy in the said grade w.e.f. 5th April, 2010.

S. RANGARAJAN, Deputy Dir.

No. RS.3/7/1/2010/27-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Shyam Lal Hembrom, Translator in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Editor in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- plus usual allowances admissible under the rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 5th April, 2010, until further orders.

S. RANGARAJAN, Deputy Dir.

No. RS.42/9/2010/28-Perl.—Shri Urujul Hasan, Security Officer has been relieved of his duties in this Secretariat w.e.f. 5th April, 2010 (A/N) and his services have been placed at the disposal of Ministry of Youth Affairs & Sports for his appointment as Addl. Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Minister of Youth Affairs & Sports (Dr. M. S. Gill) on deputation/co-terminus basis.

S. RANGARAJAN, Deputy Dir.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 6th April 2010

No. 14012/2/2007-Sec.IV—On conclusion of the disciplinary proceedings, the President is pleased to dismiss from Service Shri. M. Sankara Babu, Scientist/Engineer 'SD' (under suspension), SDSC SHAR, Sriharikota of the Department of Space, vide Order of even number dated March 30, 2010.

M. NAVAMANY, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 8th April 2010

No. A-19/G-A/102—Shri Salek Chand, Sr. Documentation Officer and Head, National Documentation Centre, is hereby appointed as Library & Information Officer in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with corresponding Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Secretariat of the Election Commission of India, on deputation basis, with effect from 04.03.2010 (A.N), for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

2. The pay and allowances of Shri Salek Chand will be regulated in accordance with the Department of Personnel & Training's O.M. No. 2/29/91-Estt.(Pay-II), dated 05.01.1994 as amended from time to time.

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

The 12th April 2010

No. A-19/G-A/103—In pursuance of Office Order No. 5/4/2010-O.L.(Ser.) dated 15.03.2010 of Department of Official Language (Ministry of Home Affairs) read with Office Order No. A.19012/3/94-E.II dated 01.04.2010 of Directorate General of Civil Aviation, Smt. Rachna Gupta, is hereby appointed as Deputy Director [Official Language] in the Election Commission of India, on ad-hoc basis, in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with corresponding Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of one year until further orders.

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 30th March 2010

No. K. 13021/1/2010-US.II(ii)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222, of the Constitution of India read with article 222 (1A) of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, the President, after consultation with the Governor of Jammu and Kashmir and the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Dr. Aftab Hussain Saikia, Chief Justice of the Sikkim High Court, as Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court and to direct him to assume charge of his office in the Jammu and Kashmir High Court on or before 13th April, 2010.

RAMESH ABHISHEK, Joint Secy.

No. K. 13021/1/2010-US.II(i)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222, of the Constitution of India read with article 222 (1A) of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, the President, after consultation with the Governor of Jammu and Kashmir and the Chief Justice of India, is pleased to

transfer Justice Shri Barin Ghosh, Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court, as Chief Justice of the Sikkim High Court and to direct him to assume charge of his office in the Sikkim High Court on or before 13th April, 2010.

RAMESH ABHISHEK, Joint Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 30th March 2010

No. 14016/11/2008-UTS-II—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003 the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed Shri Satish Kumar (Date of Birth : 01.07.1956), Inspector (D-I/867) of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the Scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- (Grade Pay Rs. 4,800/-) on probation for a period of two years with effect from 19th January, 2010 i.e., the date on which his immediate junior was appointed to the Entry Grade of DANIPS. However, his appointment from 19th January, 2010 to till date would be only notional and the officer will not be eligible for back wages. He will be entitled to other consequential benefits, which may accrue to him under the rules.

2. The appointment of Shri Satish Kumar, Inspector of Delhi Police into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007-Jagdish Chand Versus Union of India and Another.

J. K. SINGH, Desk Officer

The 5th April 2010

No. 14046/273/2002-UTS-II—The President hereby retires Shri A. A. Siddiqui, Junior Administrative Grade Officer of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service (DANIPS), who continues to be in an unconscious state since the year 2001, from the Service with immediate effect on medical grounds. He will be given the benefit of length of service upto the date of his retirement.

J. K. SINGH, Desk Officer

New Delhi, the 8th April 2010

No. I-14011/23/2009-IPS-I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 31.03.2010, approved the Select List of 2009 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 16.12.2009, containing the names of the following State Police Service

Officers of Gujarat, towards filling up three substantive vacancies during 2009 in the IPS Gujarat Cadre :—

SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Birth
	(S/Shri/Smt.)	
1.	M. S. Bharada	31.05.1965
2.	H. R. Chaudhary	19.01.1965
*3.	J. B. Mandavia	14.10.1956

* The officer at Sl. No. 03 has been included provisionally subject to clearance of Disciplinary Proceedings and grant of Integrity Certificate by the State Government.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/23/2009-IPS-I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Gujarat Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Gujarat under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Birth
	(S/Shri/Smt.)	
1.	M. S. Bharada	31.05.1965
2.	H. R. Chaudhary	19.01.1965

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

The 12th April 2010

No. I-14011/3/2009-IPS-I (II)—Consequent upon the decision dated 05.04.2010 of the Union Public Service Commission to declare the inclusion of the name of Shri Sayed Ataul Karim (Date of Birth : 01.01.1956) as unconditional in the Select List of 2008 prepared for appointment to Joint Assam-Meghalaya Cadre of Indian Police Service by promotion by the Selection Committee in its meeting held on 08.12.2009 and approved by the Commission on 15.02.2010 and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment

by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Shri Sayed Ataul Karim (Date of Birth : 01.01.1956), a member of Assam Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Joint Cadre of Assam-Meghalaya under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 7th April 2010

No. A-19011/2/2010-ISC—The President is pleased to appoint Shri Amitabh Kharkwal as Director, Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of the 1st April 2010.

SUSHIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 1st April 2010

No. 14015/15/2009-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Manipur segment of Joint Manipur-Tripura Cadre containing the following names prepared on 9th October, 2009 under Regulation 5(5) and approved on 2nd March, 2010, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Manipur-Tripura (Manipur segment) under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government during the Select List year 2009 :—

SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Birth
	(S/Shri/Smt.)	
1.	Th. Chittaranjan Singh	01.01.1958
2.	Jason Shimray (ST)	01.03.1958

2. The inclusion of the above officers in the said Select List shall be subject to the result of the Writ Petition No. 1803-1806/2010 (S-CAT) and Batch before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/15/2009-AIS(I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of Indian Administrative Service

(Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Manipur to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India Under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009 on probation until further orders and to allocate them to Manipur segment of the Joint Manipur-Tripura Cadre of IAS, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. Name of the Officers
No.

(S/Shri/Smt.)

1. Th. Chittaranjan Singh
2. Jason Shimray (ST)

2. The appointment of the above officers in the said Select List shall be subject to the result of the Writ Petition No. 1803-1806/2010 (S-CAT) and Batch before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 22nd March 2010

No. 6/PA-II/2010—The President is pleased to appoint the following officers of Integrated Grades II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service Branch 'B' in Grade-I of IFS(B) with effect from the date mentioned against their names :—

Name	Date of Promotion
Shri Baisnab C. Pradhan	22.03.2010 (FN)

2. The above appointments will be subject to any Court decision, which may have a bearing on these promotions.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.

The 31st March 2010

No. Q/PA-II/581/5/08—Consequent upon her marriage, Ms. Aparna Ray, Indian Foreign Service (Probationer) of the 2008 Batch, shall hereafter be known as "Aparna Ray Pai".

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.
(FSP & Cadre)

New Delhi, the 26th March 2010

No. 07/PB-III/2010—The President is pleased to appoint the undermentioned officer belonging to Senior Principal

Private Secretary grade of Stenographers Cadre of IFS (B) to officiate in grade of Principal Staff Officer (PSO) of Stenographers Cadre of IFS (B) with effect from the date shown against his name in terms of Ministry's O.M. No. Q/CAD/584/11/2009 dated 25th March, 2010 :—

Name of the Officer	Date of Birth	Date of Promotion
Jasbir Singh	01.04.1950	22.03.2010

2. The above mentioned officer has assumed charge of the post of Principal Staff Officer with effect from the dates indicated against his name.

S. K. VERMA, Under Secy. (PB)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 5th March 2010

No. 01 of 2010 (F. No. A-38011/2/2008-Ad.VIA)—The President of India is pleased to accept the resignation given by Shri Nilesh Kumar Patel, IRS, (Civil Code No. 91126), Additional CIT from Central Govt. Service with immediate effect.

R. S. BISHT, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 6th April 2010

No. A-12011/5/2007-Admn. IA—On successful completion of his probation, the President is pleased to appoint Shri T. Uthaya Kumar as Deputy Director (Budget & Accounts) in a substantive capacity in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs with effect from the forenoon of 19th October, 2009 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

New Delhi, the 8th April 2010

No. A-12011/13/2008-Admn. II—In pursuance of Department of Expenditure (CAS)'s O. M. No. A-32022/1/2010-CAS dated 26.03.2010, the President is pleased to appoint the following regular Private Secretary of CSSS, presently working as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Department of Economic Affairs, as Principal Private Secretary in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (G P) on regular basis, w.e.f. 26.03.2010 (FN), against the Select List year as mentioned below :—

Sl. No.	Name	Select List
1.	Shri R. Pradeep Kumar	2005
2.	Shri B. K. Khurana	2007

V. RAMKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 7th April 2010

No. 11018/1/2006-Ad. II—One post of Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,900/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) in the Staff Inspection Unit (SIU) of the Ministry of Finance, Department of Expenditure is encadred into the Central Civil Accounts Service in the O/o the Controller General of Accounts in the pay scale of Rs. 7,450—11,500/- (pre-revised) w.e.f. the date of publication of this notification in the Official Gazette.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

O/o CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS

New Delhi-110511, the 25th March 2010

No. A-32013/8/(2)/2008/Gr. A/194-231—The President is pleased to appoint, on probation, the following Sr. Accounts Officer (Group 'B') to the Junior Time Scale of ICAS (Group 'A') in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised), (New Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/-) in terms of the Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2006, as amended from time to time, with effect from the date of their taking over of the charge of the posts in the JTS :—

Sl. No. Name

1	2
	(S/Sh./Smt.)
1.	J. Totadhari
2.	A. K. Sarkar
3.	R. M. Mitra
4.	B. K. Howladar
5.	P. K. Gaur
6.	Som Dutt Sharma
7.	B. N. Sarkar
8.	D. S. Karakoti
9.	R. P. Sharma
10.	A. P. S. Chopra
11.	D. K. Gupta
12.	S. M. Narayanappa
13.	A. R. Das
14.	R. D. Khairwal
15.	D. K. Haldar
16.	T. Kanan
17.	K. C. Meena
18.	Vincent Tirkey
19.	Raj Pal

1	2
	(S/Sh./Smt.)
20.	Sukvir Singh
21.	S. R. Sharma
22.	Debabrata Maitra
23.	Rakesh Dwivedi

The period of probation shall be two years from the dates of their taking over of the charge of the posts in the JTS.

AASTHA S. KHATWANI, Dy. Controller
General of Accounts

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 5th April 2010

CORRIGENDUM

No. A-32014/1/2009-Cadre (Vol. II)—In the Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce (Supply Division's) Notification No. A-32014/1/2009-Cadre, dated January 15, 2010, published in Part 1 Section-II of the Gazette of India, the entry at the Select List year column, against the name of Shri J. N. Shah (Sl. No. 7; DOB : 02.01.1963; Cat. : ST) may be read as "1996" instead of "1998".

PARAMJIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 31st March 2010

No. A-19011/3/2008-Admn.—The President is pleased to permit Shri Bhoop Singh, Senior Accounts Officer, Ministry of Food Processing Industries to retire from Government Service with effect from the afternoon of 31.03.2010 on his attaining the age of superannuation.

S. L. BARODIA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 12th April 2010

No. A-12011/2/2010-Estt.—In pursuance of DOP&T's Order No. 3/4/2009-CS. I(D) dated 8th April, 2010, the President is pleased to appoint Shri S. L. Vashishta, Deputy Secretary of CSS of this Department as Director of CSS on regular basis in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 8th April, 2010 and until further orders.

PREMA BHATT, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 30th March 2010

No. A. 19014/02/09-Admn.I(A)—The President is pleased to appoint Ms. Poonam Yadav as Project Scientist 'B' in the Department of Science & Technology in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- on contract basis with effect from 29.03.2010 (FN) to 31.03.2012 or till the tenure of the Mission on Nano Science & Technology (Nano Mission) or until further orders, whichever is earlier.

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi-110016, the 1st April 2010

No. A-19014/08/08-Admn.I(A)—The President is pleased to retire Shri S. S. Pal, Under Secretary in the Department of Science & Technology from Government Service on attaining the age of superannuation w.e.f. 31st March, 2010 (AN).

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 10th July 2009

No. 18011/8/2000-IFS.I—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Review Selection Committee for preparation of Select Lists for the years 1985 to 1987 was conducted by Union Public Service Commission on 09.06.2008. The UPSC have now approved the revised Select List of 1985 prepared in the said meeting containing the name of Shri Ramson Modi (Date of Birth : 01.03.1947) of the State Forest Service of Joint AGMUT Cadre (Arunachal Pradesh Segment) below the name of Shri T. Millang (Date of Birth 14.03.1950) towards filling up of one promotional vacancy available in Arunachal Pradesh of the IFS Cadre as on 1st January, 1985.

VIVEK SAXENA, Director

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 5th April 2010

No. A. 12025/107/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rashi Taneja to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs. 15,600—39,100/- + (Grade Pay : Rs. 5,400/-)] in a temporary capacity with effect from forenoon of the 30.09.2008 until further orders. Dr. Rashi Taneja is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. Dr. Rashi Taneja shall be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A. 12025/110/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Arnab Sarkar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs. 15,600—39,100/- + (Grade Pay : Rs. 5,400/-)] in a temporary capacity with effect from forenoon of the 14th October, 2008 until further orders. Dr. Arnab Sarkar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Arnab Sarkar shall be on probation for two years with effect from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

New Delhi-110108, the 8th April 2010

No. A. 12025/25/06-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nikhil Khattar to the post of Assistant Professor in the specialty of Urology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 23.12.2008 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES)

New Delhi, the 31st March 2010

No. A-15012/6/2009-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri G. Subramanian, Deputy Secretary in this Department retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st March, 2010.

P. L. MEENA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH &
EDUCATION)

New Delhi, the 30th March 2010

No. A-19015/63/2008-Estt.—Dr. Ajai Kumar, Director in the Department of Agricultural Research and Education (DARE) will retire from Government Service voluntarily with effect from the forenoon of 1st April, 2010.

ROOPAK CHAUDHURI, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110114, the 12th April 2010

No. A-23018/4/2007-Estt.II—In pursuance of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training Office Memorandum OM No. 5/7/2008-CS-II, dated 17-03-2010 and consequent on his being approved for promotion, the President is pleased to appoint the Shri M. N. Gowda as Principal Private Secretary on regular basis in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) +

Grade Pay of Rs. 6,600/- in the CSSS cadre of Ministry of Rural Development, with effect from 17-03-2010 (FN). He is included in the Select List Year-2005.

NEETA TAHILIANI, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi-110001, the 5th March 2010

No. F. 6-3/2009-M-I.—The President is pleased to appoint Dr. V. K. Mathur, Museum Education Officer, National Museum, New Delhi to the post of Curator (Lecturing and Education) Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial) in the National Museum, New Delhi in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- [(P.B.-3) with Grade Pay of Rs. 6,600/-] on regular basis with effect from 18.01.2010 (F/N).

N. P. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 31st March 2010

No. 4 (776)/2009-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Smt. Usha Kalra, Section Officer (E-Code 391), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service with effect from afternoon of 31.03.2010.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

No. 4 (88)/77-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Sh. A. B. Patki, Scientist 'G' (Emp. Code No. 75) in the Department of Information Technology will retire from service with effect from afternoon of 31.03.2010.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

No. 4 (833)/2009-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Sh. Virender Kumar Tuteja, Pvt. Secretary (Emp. Code No. 0449) in the Department of Information Technology will retire from service with effect from afternoon of 31.03.2010.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

No. 4 (80)/75-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Dr. U. P. Phadke, Scientist 'G' (Emp. Code No. 72) in the Department of Information Technology will retire from service with effect from afternoon of 31.03.2010.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

The 6th April 2010

No. 3 (16)/2009-Pers. I—The President is pleased to appoint on promotion Shri Y. S. Tanwar, Scientist 'C' of

Department of Information Technology as Scientist 'D' in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- p.m. with effect from forenoon of 22.02.2010 subject to (i) the final outcome of Special Leave Petition filed by National Informatic Centre (NIC) in Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgement delivered on 26.09.2008 and (ii) validity of officer's Post Graduate Degree of M.Sc. (IT) acquired from Sikkim Manipal University of Health, Medical and Technological Sciences.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

No. 3 (16)/2009-Pers. I—The President is pleased to appoint on promotion the following Scientist 'C' of Department of Information Technology as Scientist 'D' in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- p.m. with effect from forenoon of 22.02.2010 subject to the final outcome of Special Leave Petition filed by National Informatic Centre (NIC) in Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgement delivered on 26.09.2008:—

Sl. No.	Name of Officer	With effect from
1.	Sh. T. Santhosh	22.02.2010
2.	Smt. Rekha Grover	22.02.2010

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

No. 3 (16)/2009-Pers. I—The President is pleased to appoint on promotion the following Scientist 'D' of Department of Information Technology as Scientist 'E' in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- p.m. subject to the final outcome of Special Leave Petition filed by National Informatic Centre (NIC) in Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgement delivered on 26.09.2008:—

Sl. No.	Name of Officer	With effect from
1.	Sh. Deepak Sharma	22.02.2010
2.	Smt. Sangeeta Arora	22.02.2010
3.	Sh. A. K. Kaushik	22.02.2010
4.	Dr. Sandeep Chatterjee	22.02.2010
5.	Smt. Kavita Bhatia	22.03.2010

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

No. 3 (16)/2009-Pers. I—The President is pleased to appoint on promotion Shri Arunabha Ghosh, Scientist 'B' of

Department of Information Technology as Scientist 'C' in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- p.m. with effect from forenoon of 22.02.2010 subject to the final outcome of Special Leave Petition filed by National Informatic Centre (NIC) in Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgement delivered on 26.09.2008.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 6th April 2010

No. E(O)/III-2010/RN/11—Consequent upon his permanent absorption in KRCL, Shri U.P.L. Das, SAG/IRPS, has resigned from Railway Service with effect from 24.12.2009.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)/III-2010/RN/14—Consequent upon his permanent absorption in RITES, a public sector undertaking under this Ministry, Shri S. S. Gavane, SAG/IRSM, has resigned from Railway Service with effect from 16.03.2010.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)/III-2010/RN/12—Consequent upon his permanent absorption in RITES, a public sector undertaking under this Ministry, Shri D. Mazumdar, SAG/IRSM, has resigned from Railway Service with effect from 16.03.2010.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)/III-2010/RN/05—Consequent upon his permanent absorption in KRCL, Shri K. Sundara Rajan, SG/IRAS, has resigned from Railway Service with effect from 27.10.2009.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)/III-2010/RN/10—Consequent upon his permanent absorption in KRCL, Shri A. K. Pandharkar, Selection Grade/IRPS, has resigned from Railway Service with effect from 14.10.2009.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)/III-2010/RN/15—Consequent upon his permanent absorption in RITES, Shri Jatin Sarkar, SAG/IRAS, has resigned from Railway Service with effect from 16.03.2010.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)/III-2010/RN/09—Consequent upon his permanent absorption in DMRC, Shri G. C. Agarwal, Group 'B' officer of Signal and Telecommunication Department, has resigned from Railway Service with effect from 24.12.2009.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)/III-2010/RN/13—Consequent upon his permanent absorption in Konkan Railway Corporation Ltd., a public sector undertaking under this Ministry, Shri Sanjay Gupta, SAG/IRSME, has resigned from Railway Service with effect from 14.12.2009.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 12th April 2010

No. A-32011/2/08-MA—The President is pleased to appoint Capt. P. Misra, Nautical Surveyor as Deputy Nautical Adviser-cum-Sr. DDG(Tech) in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,700/- in the Directorate General of Shipping, Mumbai with effect from 03.03.2010 (FN) and until further orders.

A. R. SENGUPTA, Under Secy.

No. A-32011/6/08-MA—The President is pleased to appoint Shri Suresh Kumar R. M., Dy. Chief Ship Surveyor in the Directorate General of Shipping to the post of Chief Ship Surveyor-cum-Joint Director General (Technical), in Directorate General of Shipping, Mumbai, in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 10,000/- with effect from 24.03.2010 (FN) and until further orders.

A. R. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 26th February 2010

No. A-19011/10/2008-E-I—Consequent upon his promotion in the Senior Administrative Grade (SAG) of Indian Statistical Service (ISS) on regular basis, vide Ministry of Statistics and Programme Implementation Order No. 12016/9/SAG/2008-ISS(Vol.1) dated 11.12.2009 read with the Order No. 11015/2/2008-ISS dated 01.09.2008, the President is

pleased to appoint Shri Madan Mohan Hasija, an officer of Indian Statistical Service (ISS), as Deputy Director General in the Ministry of Road Transport & Highways in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/- w.e.f. 11.12.2009 (After-noon) and until further orders.

2. This order will be subject to the outcome of the CAT cases viz., (1) OA No. 586/09 filed by Sh. E. Nagachandran before Hon'ble CAT, Hyderabad Bench and (2) OA No. 1705/09 filed by Shri T. R. Mohanty before, Hon'ble CAT, PB, New Delhi.

V. KRISHNASWAMY, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 7th April 2010

No. 12/2010. (File No. A-38012/1/2008-Adm.-I)—The following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, in the Central Electricity Authority, retired from service under the Government of India on the afternoon of the date mentioned against each, on attaining the age of superannuation :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of Superannuation
	(S/Shri)		
1.	I. J. Sharma	Director (Engineering)	31.03.2010
2.	Y. P. Kohli	Asstt. Director Grade-I (Engineering)	31.03.2010

N. SRIRAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 19th March 2010

No. 7/2010 (File No. 22/649/2009-Admn.)—Consequent upon her promotion to the Senior Administrative Grade (SAG) of the Indian Statistical Service (ISS) on regular basis in the Pay Scale (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- (Grade Pay) vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12016/9/SAG/2008-ISS (Vol.1) dated 11.12.2009, the President is pleased to appoint Smt. Mamta Saxena, Director (Stats) in the Ministry of Water Resources as Deputy Director General (Stats) w.e.f. the forenoon of 11.12.2009, until further orders, by upgrading one post of Director (Stats) to the grade of Deputy Director General, as personal to the incumbent.

N. K. GUPTA, Under Secy.

No. 6/2010 (File No. 22/487/2001-Admn.)—Consequent upon his promotion to the Senior Administrative Grade (SAG) of the Indian Statistical Service (ISS) on regular basis in the Pay Scale (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- +

Rs. 10,000/- (Grade Pay) vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12016/9/SAG/2008-ISS (Vol.1) dated 11.12.2009, the President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar, Director (Stats) in the Ministry of Water Resources as Deputy Director General (Stats) w.e.f. the forenoon of 11.12.2009, until further orders, by upgrading one post of Director (Stats) to the grade of Deputy Director General, as personal to the incumbent.

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 8th April 2010

No. 7/18/2008-CGWB—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Col. (Retd.) Mohan Chandra Joshi to the post of Director (Administration) in the Scale of Pay in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + G.P. 8,700/- in the Central Ground Water Board on re-employment basis w.e.f. 22.02.2010 (AN) upto 31.01.2013 or until further orders, whichever is earlier.

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.